

अनुक्रमांक.....

मुद्रित पृष्ठों की संख्या: 6

नाम.....

931

824 (IK)

2025

विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनट।

[ पूर्णांक: 70

निर्देश :

- (i) प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र दो खण्डों खण्ड अ तथा खण्ड ब में विभाजित है।
- (iii) खण्ड अ तथा खण्ड ब तीन उप-भागों 12 और 3 में विभाजित हैं।
- (iv) प्रश्न-पत्र के खण्ड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन कर ओ.एम. आर. उत्तर-पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेज़र अथवा ह्विटनर का प्रयोग न करें।
- (v) खण्ड अ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।
- (vi) खण्ड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं।
- (vii) प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं।
- (viii) खण्ड व के प्रत्येक उप-भाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उप-भाग नए पृष्ठ से प्रारम्भ किया जाए।
- (ix) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

खण्ड 'अ'

उप-भाग 1

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है: 1  
(A) सीधा, आभासी, छोटा (C) सीधा, आभासी, बड़ा  
(B) सीधा, वास्तविक, बड़ा (D) सीधा, वास्तविक, छोटा

2. दूर-दृष्टिदोष (दीर्घ दृष्टिदोष) के निवारण में कौन-सा लेन्स प्रयुक्त होता है? 1
- (A) अवतल लेन्स (B) उत्तल लेन्स
- (C) द्विफोकसी लेन्स (D) इनमें से कोई नहीं
3. एक लेन्स से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिम्ब का आवर्धन 0.5 है। यह लेन्स होगा: 1
- (A) 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेन्स
- (B) 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेन्स
- (C) 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेन्स
- (D) 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेन्स
4. जब श्वेत प्रकाश काँच के प्रिज़्म से गुज़रता है, तो प्रिज़्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है: 1
- (A) नीला (B) लाल
- (C) हरा (D) बैंगनी
5.  $R_1$  व  $R_2$  प्रतिरोधों के दो तार समान्तर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा: 1
- (A)  $(R_1 + R_2)$  (B)  $(R_1 \times R_2)$
- (C)  $\left(\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}\right)$  (D)  $\left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 + R_2}\right)$
6. बिजली के बल्ब का फिलामेन्ट (तंतु) बना होता है: 1
- (A) नाइक्रोम का (B) लोहे का
- (C) टंगस्टन का (D) कॉन्स्टेन्टन का
7. वैद्युत सेल में रूपान्तरण होता है: 1
- (A) रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में
- (B) वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में
- (C) यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में
- (D) वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में

उप-भाग 2

8. रासायनिक अभिक्रिया  $2\text{FeCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Y} \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$  में Y है: 1  
(A) S (B)  $\text{H}_2\text{S}$   
(C)  $\text{SO}_2$  (D)  $\text{Cl}_2$
9. निम्नलिखित में से कौन-सा अम्लीय लवण है? 1  
(A) NaCl (B)  $\text{NaHSO}_4$   
(C)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  (D) KCN
10. मैट में मुख्यतः होता है: 1  
(A) FeS (B)  $\text{Cu}_2\text{S}$   
(C)  $\text{Cu}_2\text{S}$  तथा FeS (D)  $\text{Cu}_2\text{S}$  तथा  $\text{Fe}_2\text{S}_3$
11. निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए: 1  
\_\_\_\_\_ +  $\text{PCl}_5 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$   
(A)  $\text{CH}_3\text{OH}$  (B)  $\text{CH}_3\text{COOH}$   
(C)  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  (D)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
12. उभयधर्मी ऑक्साइड है: 1  
(A)  $\text{Na}_2\text{O}$  (B) MgO  
(C)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (D)  $\text{P}_2\text{O}_5$
13. प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है: 1  
(A)  $\text{CH}_4$  (B)  $\text{C}_3\text{H}_8$   
(C)  $\text{C}_4\text{H}_{10}$  (D)  $\text{C}_2\text{H}_6$

### उप-भाग 3

14. हाइड्रा में प्रजनन होता है: 1
- (A) मुकुलन द्वारा (B) विखण्डन द्वारा
- (C) खण्डन द्वारा (D) कायिक प्रवर्धन द्वारा
15. पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया सम्पन्न होती है: 1
- (A) कोशिकाद्रव्य में (B) माइटोकॉन्ड्रिया में
- (C) हरितलवक में (D) केंद्रक में
16. मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? 1
- (A) पोषण (B) श्वसन
- (C) उत्सर्जन (D) परिवहन
17. मेंडल ने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी: 1
- (A) मन्दिर में (B) स्कूल में
- (C) गुरुकुल में (D) गिरजाघर में
18. मादा जनन-तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? 1
- (A) अण्डाशय में (B) अण्डवाहिनी में
- (C) गर्भाशय में (D) योनि में
19. निम्न में से कौन-सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? 1
- (A) जायांग (B) पुंकेसर
- (C) वर्तिकाग्र (D) अण्डाशय
20. निम्न में से कौन-सा/से पर्यावरण-मित्र व्यवहार कहलाता/कहलाते है/हैं? 1
- (A) बाज़ार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना
- (B) अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना
- (C) वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना
- (D) उपर्युक्त सभी

## खण्ड 'ब'

### उप-भाग 1

#### वर्णनात्मक प्रश्न

21. एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिम्ब बने, जबकि प्रतिबिम्ब वास्तविक हो। प्रतिबिम्ब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। 4
22. एक उत्तत लेन्स की फोकस दूरी 30 सेमी है। उस वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति बताइए जो लेन्स से 25 सेमी की दूरी पर अक्ष के लम्बवत् है तथा प्रतिबिम्ब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। 4
23.  $2\Omega, 3\Omega$  तथा  $5\Omega$  के प्रतिरोधो को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवान्तर लगा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवान्तर ज्ञात कीजिए। 4
24. घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण (विद्युत्-रोधन) के रंग लिखिए। 6
- (i) जीवित (विद्युन्मय) तार
- (ii) भू-सम्पर्क तार
- (iii) उदासीन तार

#### अथवा

प्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा (ii) दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं? 6

### उप-भाग 2

25. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सन्तुलित रासायनिक समीकरण लिखिए: 1+1+1+1=4
- (i) लेड नाइट्रेट को गर्म करना
- (ii) एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया
- (iii) जिंक की सिल्वर नाइट्रेट में अभिक्रिया
- (iv) सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया

26. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: 2+2=4

- (i) समजातीय श्रेणी
- (ii) कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति

27. (क) निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए : 3

- (i)  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- (ii)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
- (iii)  $\text{CH}\equiv\text{CH}$

(ख) साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की दो विशेषताएँ लिखिए । 3

अथवा

- (क) ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ स्पष्ट कीजिए । 2
- (ख) pH मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सान्द्रण से क्या सम्बन्ध है ? 2
- (ग) खनिज तथा अयस्क में अन्तर बताइए । 2

उप-भाग 3

28. (क) भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 2

(ख) ओज़ोन परत हमारे लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? 2

29. (क) स्व-परागण तथा पर-परागण में विभेद कीजिए । 2

(ख) परिवार नियोजन की किन्हीं दो स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 2

30. (क) किन्हीं दो पादप हॉर्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए । 2

(ख) पौधों में रन्ध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए । 2

31. मानव में वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए । 3+3=6

अथवा

लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 6

\*\*\*